

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, अरुणाचल प्रदेश राज्य एकक, ईटानगर मे
२८ सितम्बर, २०१५ को द्वितीय तिमाही राजभाषा संगोष्ठी
का आयोजन (जुलाई- सितंबर, २०१५)

हिन्दी अनुभाग, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्याल के निर्देशानुसार, हिन्दी संगोष्ठी त्रैमासिक आधार पर आयोजित किया जाना है | इस प्रयास का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी पर जागरूकता पैदा करना है |

उपर्युक्त के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, अरुणाचल प्रदेश राज्य एकक, ईटानगर मे जुलाई-सितंबर, २०१५ त्रिमास के राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन २८ सितम्बर, २०१५ को किया गया जिसका विषय था "राजभाषा हिंदी में आने वाली कठिनाइयों और उसको दूर करने के तरीके" | डॉ वी० एन० शर्मा (राज्य संपर्क अधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार) कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे |

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, अरुणाचल प्रदेश राज्य एकक, ईटानगर के गतिविधि-समीक्षा की | महत्वपूर्ण सुझावों के साथ मार्गदर्शन भी किया | उन्होंने 'हिंदी की अस्मिता' पर भाषण देकर कार्यक्रम की भूमिका बाँधी | राज्य के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के मध्यम से समारोह में हिस्सा लिया |

संगोष्ठी के दौरान मुख्य अतिथि महोदय ने इतिहास एवं आज़ादी में हिंदी के योगदान से, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के महत्त्व से अवगत कराया | विश्व में हिन्दी की सराहनीय भूमिका पर बातचीत की | इसके साथ ही उन्होंने हिन्दी का प्रयोग कम होने के कई कारणों जैसे कि इच्छा शक्ति की कमी, आदि पर भी बातचीत की | हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझावों के रूप में उन्होंने नियमित रूप से प्रतियोगितायें जैसे कि सुलेख प्रतियोगिता, हिंदी - शब्द रूपांतरण प्रतियोगिता, हिंदी में ज्यादा पत्राचार पर पुरस्कार, हिंदी अखबार पढ़ना, आदि पर भी बल दिया |

मुख्य अतिथि महोदय ने एक प्रतियोगिता भी संचालन किया और परिणाम घोषित किया | प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं |

क्रम संख्या	प्रतियोगी का नाम	पद अर्जित
१.	श्री ज्योतिष राय, वैज्ञानिक-ई श्री देवेन्द्र, वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक-ए श्री नीरज कुमार सिंह, जि० सू० वि० अ०, यिंगकिआंग	संयुक्त प्रथम स्थान
२.	श्री अनिल कुमार बहेलिया, वैज्ञानिक / तकनीकी सहायक - बी	द्वितीय स्थान
३.	श्री देबाशीष नाथ, वैज्ञानिक-ई	तृतीय स्थान

संगोष्ठी की झलक



राष्ट्रीय सूचना - विज्ञान केंद्र
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ विशेषज्ञ
THE IT SUPPORT PROFESSIONALS

देबाशीष नाथ
प्रभारी अधिकारी - हिंदी